

Roll No.

E-127

**M. Com. (Fourth Semester) (Main/ATKT)
EXAMINATION, May-June, 2021**

(Optional—Specialization)

[Optional Group—C : (Banking and Insurance)]

Paper Fourth (C)

GENERAL INSURANCE

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Attempt all Sections as directed.

खण्ड—अ

प्रत्येक 1

(Section—A)

वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न

(Objective/Multiple Choice Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

सही उत्तर का चयन कीजिए :

Choose the correct answer :

1. बीमा की परिभाषा को विभाजित किया जाता है :

(अ) सामान्य परिभाषाएँ

(ब) आर्थिक परिभाषाएँ

(स) संवैधानिक परिभाषाएँ

(द) उपर्युक्त सभी

Defined to insurance as follow :

(a) General definitions

(b) Economic definitions

(c) Constitutional definitions

(d) All of the above

2. बीमा है :

(अ) एक अनुबंध

(ब) जोखिम को बाँटना

(स) जोखिम से सुरक्षा

(द) उपर्युक्त सभी

Insurance is :

(a) A contract

(b) Dividation to risk

(c) Safety from risk

(d) All of the above

3. बीमा के कार्यों को विभाजित किया जाता है :

(अ) प्राथमिक कार्य

(ब) सहायक कार्य

(स) अप्रत्यक्ष कार्य

(द) उपर्युक्त सभी

P. T. O.

Divided to work of insurance :

- (a) Primary functions
- (b) Secondary functions
- (c) Indirect functions
- (d) All of the above

4. हानि की अनिश्चितता को कहते हैं :

- (अ) जोखिम
- (ब) संकट
- (स) (अ) और (ब) दोनों
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Loss uncertainty is called :

- (a) Risk
- (b) Peril
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of the above

5. जोखिम का आधार है :

- (अ) हानि की संभावना
- (ब) अनिश्चितता
- (स) बीमा
- (द) देयता

The basis of the risk is :

- (a) Probability of loss
- (b) Uncertainty
- (c) Insurance
- (d) Liability

6. पुनर्बीमा का अर्थ है :

- (अ) दोहरा बीमा
- (ब) फिर से बीमा
- (स) सहबीमा
- (द) अधिबीमा

Re-insurance means :

- (a) Double insurance
- (b) Insuring again
- (c) Co-insurance
- (d) Over-insurance

7. सामाजिक बीमा में सम्मिलित होते हैं :

- (अ) मृत्यु बीमा
- (ब) अपंगता बीमा
- (स) बेरोजगारी बीमा
- (द) उपर्युक्त सभी

To be included in social insurance :

- (a) Death Insurance
- (b) Disability Insurance
- (c) Unemployment Insurance
- (d) All of the above

8. पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार व्यवसाय का खेल है।

- (अ) लाभ
- (ब) जोखिम
- (स) साहस
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

According to Peter F. Drucker business is play of :

- (a) Profit
- (b) Risk
- (c) Venture
- (d) None of the above

9. वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व हैं :

- (अ) प्रस्ताव एवं स्वीकृति
- (ब) अनुबंध करने की क्षमता
- (स) स्वतंत्र सहमति
- (द) उपर्युक्त सभी

The essential elements of a valid contract :

- (a) Proposal and Acceptance
- (b) Ability of contract
- (c) Free consent
- (d) All of the above

10. क्षतिपूर्ति का अनुबंध है :

- (अ) समुद्री बीमा
- (ब) जीवन बीमा
- (स) (अ) और (ब) दोनों
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

The contract of indemnity is :

- (a) Marine insurance
- (b) Life insurance
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of the above

11. फसल बीमा है :

- (अ) सामाजिक बीमा
- (ब) व्यक्तिगत बीमा
- (स) सामूहिक बीमा
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

The crop insurance is a :

- (a) Social insurance
- (b) Personal insurance
- (c) Group insurance
- (d) None of the above

12. पशु बीमा नीति के अन्तर्गत पशु सम्मिलित नहीं है :

- (अ) गाय
- (ब) भैंस
- (स) कुत्ता
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Which cattle is not included under the cattle insurance policy ?

- (a) Cow
- (b) Buffalo
- (c) Dog
- (d) None of the above

13. अग्नि बीमा की अधिकतम अवधि होती है :

- (अ) 3 माह
- (ब) 6 माह
- (स) 2 माह
- (द) 12 माह

To be maximum period of fire insurance :

- (a) 3 months
- (b) 6 months
- (c) 2 months
- (d) 12 months

14. बीमा के लाभ हैं :

- (अ) सुरक्षा
- (ब) विनियोग
- (स) (अ) और (ब) दोनों
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Advantage of insurance is :

- (a) Safety
- (b) Investment
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of the above

15. बीमा जुआ की प्रसंविदा है।

- (अ) सत्य
- (ब) असत्य
- (स) अर्द्ध-सत्य
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

The insurance is contract of gambling.

- (a) True
- (b) False
- (c) Semi-true
- (d) None of the above

16. भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक फसल बीमा योजना प्रारम्भ की ?

- (अ) 1987
- (ब) 1988
- (स) 1985
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

In which year Indian Government started comprehensive crop insurance plan ?

- (a) 1987
- (b) 1988
- (c) 1985
- (d) None of the above

17. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई :

- (अ) वर्ष 1998-1999 में
- (ब) वर्ष 1999-2000 में
- (स) वर्ष 2000-2001 में
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

In which year National Agriculture Insurance Plan started ?

- (a) 1998-1999
- (b) 1999-2000
- (c) 2000-2001
- (d) None of the above

18. माल परिवहन के लिए किया जाने वाला शुल्क है :

- (अ) प्रीमियम
- (ब) किराया
- (स) पतवार
- (द) कार्गो

Goods transportation charge is :

- (a) Premium
- (b) Freight
- (c) Hull
- (d) Cargo

19. विविध बीमा को इंग्लैण्ड में कहते हैं :

- (अ) आपात् बीमा
- (ब) दुर्घटना बीमा
- (स) जीवन बीमा
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

What is said in England to miscellaneous insurance ?

- (a) Causality insurance
- (b) Accident insurance
- (c) Life insurance
- (d) None of the above

20. निम्नलिखित में से कौन-सा विविध बीमा है ?

- (अ) समुद्री बीमा
- (ब) अग्नि बीमा
- (स) जीवन बीमा
- (द) पशु बीमा

From the following which is a miscellaneous insurance ?

- (a) Marine Insurance
- (b) Fire Insurance
- (c) Life Insurance
- (d) Cattle Insurance

खण्ड—ब

प्रत्येक 2

(Section—B)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

नोट : इस खण्ड के किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में दीजिए।

Write answer of any *eight* questions from this Section in *two* or *three* sentences.

1. बीमा योग्य हितलाभ का अर्थ बताइये।

State the meaning of Insurable Interest.

P. T. O.

2. बीमा संकट को समझाइये।

Explain the insurance peril.

3. अनुग्रह दावा क्या है ?

What is Ex-gratia ?

4. अग्नि बीमा के कोई दो दोष बताइए।

State the any *two* disadvantages of fire insurance.

5. विशेष पुनः प्रवर्तन योजना को समझाइए।

State the Special Revival Scheme.

6. बीमा अनुबंध एवं सामान्य अनुबंध में एक अन्तर बताइए।

State the any *one* distinguish between insurance contract and general contract.

7. समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा दीजिए।

Define marine insurance business.

8. आंशिक हानि को समझाइए।

State the partial loss.

9. चोरी बीमा का अर्थ बताइए।

State the meaning of Burglary Insurance.

10. अल्पबीमा को समझाइए।

State the under-insurance.

[13]

E-127

खण्ड—स

प्रत्येक 3

(Section—C)

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द-सीमा 75 शब्द।

Attempt any *eight* questions. Maximum word limit 75 words.

1. बीमा की विशेषताएँ बताइए।

State the characteristics of Insurance.

2. बीमा के सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए।

Clarify the social importance of Insurance.

3. दुर्घटना में बीमित की मृत्यु की दशा में दुर्घटना मृत्यु लाभ को समझाइए।

Explain accident death benefit in case of death in accident.

4. समुद्री बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्वों को संक्षेप में समझाइए।

Explain in brief the essential elements of marine insurance contract.

5. कालातीत बीमापत्रों सम्बन्धी शर्तों को समझाइए।

Explain the condition relating to Lapsed Policies.

6. समुद्री बीमा के अन्तर्गत आंशिक हानि के दावे की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

Describe the claim procedure for partial loss under marine insurance.

P. T. O.

[14]

E-127

7. “अग्नि बीमा क्षतिपूर्ति संविदा है साथ ही वैयक्तिक संविदा भी।” इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए।

“Fire insurance is a contract of indemnity as well as a personal contract.” Explain the meaning of this statement.

8. दोहरा बीमा एवं पुनर्बीमा में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Distinguish between double insurance and re-insurance.

9. भारत में फसल बीमा की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिए।

Explain the present position of crop insurance in India.

10. पशु बीमा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

Describe briefly the cattle insurance.

खण्ड—द

प्रत्येक 5

(Section—D)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द-सीमा 150 शब्द।

Attempt all questions. Maximum word limit 150 words.

1. बीमा की परिभाषा दीजिए तथा उद्योग एवं वाणिज्य के विकास में बीमा की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

Define Insurance and explain the role of insurance in the development of Commerce and Industry.

[15]

E-127

अथवा

(Or)

“बीमा एक व्यवस्था है जो एक विवेकशील व्यक्ति आकस्मिक हानि या दुर्भाग्य के विरुद्ध करता है।” सर टॉमस के इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा बीमा के महत्व को समझाइये।

“Insurance is a provision which a prudent man makes against for tuitour losses or misfortune.” Discuss this statement of Sir Thomas and explain the importance of insurance.

2. पुनर्बीमा से आप क्या समझते हैं ? पुनर्बीमा की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए।

What do you understand by Re-insurance ? Explain its various systems.

अथवा

(Or)

सामुद्रिक हानियों से आप क्या समझते हैं ? इन्हें ठीक ढंग से वर्गीकृत करते हुए इनका अर्थ समझाइए।

What do you understand by marine loss ? Explain its meaning with an exact classification.

3. अग्नि बीमा पॉलिसी कराने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

Explain the procedure to actuate Fire Insurance Policy.

P. T. O.

[16]

E-127

अथवा

(Or)

मोटर बीमा के अन्तर्गत किन-किन जोखिमों को संवृत किया जाता है और कौन-कौन से बीमा पत्र जारी किये जाते हैं ? विवेचन कीजिए।

Which risks are covered with motor insurance and which policies are issued ? Discuss.

4. फसल बीमा की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। इस बीमे की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं ?

Discuss the need and importance of crop insurance. What are the main difficulties of this insurance ?

अथवा

(Or)

दुर्घटना बीमा क्या है ? व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की शर्तों की विवेचना कीजिए।

What is accident insurance ? Discuss the conditions for getting compensation under personal accident plan.

E-127